

संदर्भ/Ref. : NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2025/196

दिनांक/Dated: 12.02.2025

To,

प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/Phiroj Jeejeebhoy Towers

दलाल स्ट्रीट/Dalal Street,

मुम्बई/MUMBAI- 400 001

स्क्रिप कोड/Scrip Code: 532234

To,

प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East,

मुम्बई/MUMBAI-400 051

प्रतीक/Symbol: NATIONALUM

विषय/Sub: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश की रिकॉर्ड तिथि के संबंध में समाचार पत्र प्रकाशन | / Newspaper publications regarding Record date for 2<sup>nd</sup> Interim Dividend for Financial year 2024-25

महोदय/Dear Sir,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 47 के अनुसार, कृपया वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश की रिकॉर्ड तिथि के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजिनक सूचना की प्रतियां संलग्न की गई है। / As per Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of Public Notice published in Newspapers regarding Record date for 2nd Interim Dividend for financial year 2024-25.

उपरोक्त नोटिस 12.02.2025 को उड़िया अखबार "धरित्रि ", हिन्दी अखबार "नवभारत" और अंग्रेजी अखबार "बिज़नेस स्टैंडर्ड " में प्रकाशित हुआ था। /The above notice was published on 12.02.2025 in the "Dharitri" the Odia newspaper, "Navabharat" the Hindi newspaper and "Business Standard", the English newspaper.

आपकी जानकारी और अभिलेख हेतु/This is for your information and record. धन्यवाद/Thanking you,

भवदीय/Yours faithfully, कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड For National Aluminium Co. Ltd.

(बी के साहू)/ (B.K. Sahu) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी/ Company Secretary and Compliance Officer ACS:9953

**Encl.: As above** 

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

म्पनी लिमिटेड
National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)
निगम कार्यालय
REGD. & CORPORATE OFFICE

नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत Nalco Bhawan, Na

Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India





ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଶଙ୍କ ସେଲ୍ଫି

#### metroselfie@gmail.com



@ ରମେଶ



@ ଦେବାଶିଷ





@ ଅନୀତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୧।୨(ବନ୍ଦନା ସେଠୀ)

ଉଚ୍ଚଶ୍ୟା ବଭାଗ ଦେଇଥବ

ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜର ଦାବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୧।୨(ସୁଚିସ୍ମିତା ସାହୁ)

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା

ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଅଥି ମଞ୍ଜୁର

ଦାବି ନେଇ ୩୯୧ ବ୍ଲକ

କ୍ରାଇଟେରିଆ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ

ଓ କମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ

ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ୱା

କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରୁ ବାହାରି

ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ

ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ

ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ୱାରେ ସାମିଲ

ହୋଇଥିଲେ । ସଂଘର ଏକ

ପ୍ରତିନଧ୍ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ

ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ।

ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନ

ଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଂଘର

ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ପହଞ୍ଚୃଥିଲା l

ଅଧାପିକା

ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ

ସଭାପତି ଶୀକାନ୍ତ

ମେହେର

ନେତୃତ୍ୱରେ

@ ଆଭାସ



@ ଉମିଲା

ସେଲ୍ଫି ପଠାଇବା ସମୟରେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନୟର ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍କୁ ନାହିଁ । ଯୋଗ୍ୟବିବେଚିତ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

# ନବମ, ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧାହୁଭୋଜନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଶତ କରାଯିବ।

ରାଣୀହାଟ

सीएमपीडीआई

cmpdi



ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ

ହାଇସ୍କୁଲର ଶତ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର

#### କଟକ,୧୧।୨(କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ)

ନବମ ଓ ଦଶମ ଶେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ । ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଦାନ ଶ୍ୱେଶୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଉଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ନୃତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ

୯ କି.ମି. ମୃତଦେହ କାନ୍ଧରେ

ପାରଳାଖେମୁଷ୍ଟି,୧୧।୨

(ଗିରିଧାରୀ ପରିଛା)

ଗଜପତି ଜିଲା ଗୁନ୍ତା ବ୍ଲକର

ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ

ନାହିଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣ

ଆୟୁଲାନ୍ସ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ

ନ ପାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ

କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଗ୍ରାମକୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ବାରୁସିଂ ଗ୍ରାମରେ

ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ହେଉଛନ୍ତି l

ମୃତଦେହକୁ

ନେଇଥିଲେ I

ଏଭଳି

ଜିଲା ଗୁନ୍ତା ବୃକ

ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା

୯ କି.ମି.

ଗଜପତି

ବୃଷଭ

ଅଭାବନୀୟ

ବୋହିଲେ ଗାମବାସୀ

ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ମୂକସାକ୍ଷୀ ରାଣୀହାଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଶହେ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟକ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଡିର ଆହୁରି ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଟକ ସହରର ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଠପଢ଼ି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ

ଏମ୍ପି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଗତ ସମୀର ଦେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଶିଳ୍ପପତି ଇମ୍ପାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା, ରୁଚି ମସଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ । ଏହିବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କ ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ । ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଫିଡର ସ୍କୁଲ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଶୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୮୦୦ ସ୍କୁଲକ୍ର

CENTRAL MINE PLANNING AND DESIGN INSTITUTE LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited)

All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of

Goods, Works and Services are available on websites of Coal India Ltd.

www.coalindia.in/respective Subsidiary Company (CMPDI, www.

cmpdi.co.in), CIL e-procurement portal https://coalindiatenders.

nic.in and Central Public Procurement Portal https://eprocure

gov.in. In addition, procurement is also done through GeM Portal

NOTICE TO SHAREHOLDERS

The Board of Directors in their meeting held on 10.02.2025 has approved 2nd interim

In this connection, Notice is hereby given that, Friday, the 14th February, 2025 has

been fixed as 'Record Date' for payment of 2nd interim dividend for the financial year

Dividend income is taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 01.04.2020 and

accordingly, the Company will deduct tax at source (TDS) as per provisions under the

Income Tax Act, 1961. Shareholders holding shares in physical mode are requested to update their KYC details with the RTA, M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. immediately

otherwise dividend amount will be held back till updation of the KYC details, as per

Further, shareholders who have not yet submitted Forms 15G/15H, as applicable, for

non-deduction of TDS on dividend, are requested to submit the applicable Form to the

Information about the record date is also available on the website of the Company i.e.

www.nalcoindia.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e.

ଫର୍ମ ନଂ. ୧୩

ରଣ ଅସୁଲି ପ୍ରାଧିକରଣ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଇଜିଲାସ୍

ସି-୭୧, ସେକ୍ର-୭, ସିଡିଏ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା

ଓ.ଏ ନଂ. ୨୦୨୪ର ୫୬୧

ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀ: ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ, ସା: ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା କାହିଁକି ମଞ୍ଜୁର କରାନଯିବ ତାହାର କାରଣ

ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖବରକାଗଳ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ସମନ

ଦ୍ୱାରା **ଟ.୪୬,୦୮,୬୭୬.୭୯ ପଇସା** ରଣ ରାଶି ଓ ତତ୍ସହିତ ଚଳିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧ

ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଋଣ ଅସୁଲି ପ୍ରାଧିକରଣ, କଟକଙ୍କ ଠାରେ

ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଉପରଲିଖିତ ପ୍ରତିବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦିଆଯାଉଅଛି କି, ସେମାନେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖର **୩୦ଦିନ** ମଧ୍ୟରେ କିୟ

ତା.୧୮.୦୩.୨୦୨୫ ରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ ୧୦.୩୦ ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଦାଲତରେ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିୟା ଓକିଲ କିୟା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତ୍ତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା କାହିକି ମଞ୍ଜୁର କରାନଯିବ ତାହାର କାରଣ

କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦରଖାୟର ଶୁଣାଣି ଏବଂ ବିଊର କରାଯିବ ।

ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରାଇଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖିଲାପ

ଆୟର ଦୟଖତ ଏବଂ ରଣ ଅସୁଲି ଅଦାଲତଙ୍କ ସହିମୋହର ସହ ଦିନାଙ୍କ ୧ ଫେବୃୟାରୀ

**ODISHA LIFT IRRIGATION CORPORATION LIMITED** 

ଏତଦଦାରା କଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଆବେଦନକାରୀ ଓ.ଏ. ନଂ.: ୨୦୨୪ର ୫୬୧

For National Aluminium Company Limited

(B. K. Sahu)

**Company Secretary** 

...ଆବେଦନକାରୀ

.....ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ

ସ୍ୱା/- ନିଖିଳ ରଞ୍ଜନ ପତି

dividend @ Rs. 4/- per share for the financial year 2024-25.

2024-25 to the eligible shareholders.

SEBI Master Circular dated 17.05.2023.

www.bseindia.com and www.nseindia.com

କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏ.ଆର.ଏମ୍ ଶାଖା, କଟକ

ମେସର୍ସ କିର୍ତ୍ତୀ ଏଣ୍ଟରପାଇକେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ

ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିପାରିବେ ।

ପ୍ରତିବାଦୀ ନଂ.: ୫

Place: Bhubaneswar

ଜିଲ୍ଲା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା-୭୫୧୦୦୬

୨୦୨୫ ରେ ଆଦିଷ ।

Date: 11.02.2025

ପ୍ରାସ୍ତେଷ୍ଟ୍ର,

na Place, Kanke Road, Ranchi - 834008, Jharkhand, India

NALCO Bhawan, Plot No. P/1, Navapa

Bhubaneswar-751013, Odisha

(CIN: L27203OR1981GOI000920)

ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏଥିରେ ସନ୍ନାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ

ପୃଥ୍ୟୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂହ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବ । ଏଥିରେ ଚୌଦ୍ୱାର–କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାରବାଟୀ-କଟକ ସୋଫିଆ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ସାରଦା ପ୍ରଧାନ, କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, କଟକ ଜିଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ

#### ରାଣୀହାଟ ହାଇୟୁଲର ଶତ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ

■ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା

■ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ ଆଦର୍ଶ ପାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ

■ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ **୮**୦୦ ୟୁଲ ହେବ ଉକ୍ରର୍ଷ କେନ୍ଦ

ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ, ଶତବାର୍ଷିକୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଜଷ୍ଟିସ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀ, ଶତବାର୍ଷିକୀ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ବଜ କିଶୋର ନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ମହାଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଶତବାର୍ଷିକ ସ୍କୁଲର ଅବସରରେ ଉନ୍ଗୋଚିତ ହୋଇଥିଲା

#### WANTED

Temporary Maruti 800 Car Driver Required. Sundarpada area.

# JRGENT REQUIREMENT

FIELD SALES EXECUTIVE for Pvt. Ltd. Company Interested candidate with Minimum Qualification of +2 Pass can apply

|Contact: 9938253167

Driver should be From Contact - 9439010298

# Male Candidates from Kalahandi to work at Lanjigarh.

.SUPERVISOR (Horticulture): Diploma in Hort with Min. 3 years experience. SAFETY INCHARGE: Relevant Educational qualification

with Min. 3 years experience in relevant field. LEAD HR: HR with Min. 3 years exp.

. NURSERY EXPERT: 1 No., having 3 years experience.

## e-mail CV: greenagro2001@gmail.com

PARADIP PORT AUTHORITY PARADIP-754142, ODISHA (INDIA) (An autonomous body under Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Govt. of India)

No. AD/RSC-22/01/2025/257 Dated, the 07th February, 2025

### Advertisement

Applications are invited from Indian Nationals for engagement of 04 (four) nos. of VTS Operator on Contractual basis in Paradip Port

For further details, visit our website: www.paradipport.gov.in

Sd/- Sr. Asst. Secretary,

PPA/PR/61/2024-25 Dt. 10.02.2025 Paradip Port Authority

## वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, राँची

## सर्वसाधारण के लिए सुचना



नाम-तितली कच्छप, उम्र-35 वर्ष, रंग-सॉवला,ऊँचाई-5 फीट, पहनावा-काला रंग का सूट एवं काला रंग का सलवार पहनी हुई है।

उपरोक्त लापता महिला तितली कच्छप, उम्र-35 वर्ष, पे0-स्व0 सोहराई कच्छप, माता-जतरी कच्छप, सा0-नया लटमा, हटिया, थाना- जगरनाथपुर जिला-राँची जो दिनांक-13.01.2025 को घर से बगैर बताए कहीं चली गई जो आजतक अपने घर वापस नहीं आई है। जिसके संबंध में जगरनाथपुर थाना सन्हा संख्या–15/2025, दिनांक–17.01.2025 दर्ज कर खोजबीन की जा रही है। उपरोक्त सूचना को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है।

अतः सभी जनसाधारण से अनुरोध है कि यदि उपरोक्त लापता महिला कहीं मिलती / दिखती है तो इसके संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में या निम्नांकित फोन नम्बर पर संपर्क कर इसकी सूचना दें।

-9431706143

Email ID(rnc-dcb@jhpolice.gov.in) पुलिस उपाधीक्षक, हटिया, रॉची। थाना प्रभारी जगरनाथपुर, रॉची।

PR 346314 (Police)24-25\*D

-9431706189 पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची

#### OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, MINOR IRRIGATION DIVISION, HAZARIBAG.

#### e-Procurement Tender Notice Tender Reference No. :- DMFT/MID/ HAZARIBAG/F2-26/2024-25

Letter no - 157 Date:- 10/02/2025 Name of the work Construction of 1.2 KM road from Padma Railway Station to Saraiyapar river Via Garukurha, Vill-Padma, Block-padma Estimated Cost (Rs.) Rs.- 2,49,90,900.00 Time of Completion 11 Months 24.02.2025 at 3:00 P.M Date of Publication of e-Tender on website (e-Procurement Portalhttp://jharkhandtenders.gov.in) Last date/Time for 05.03.2025 up to 5:00 P.M Submission of e-Tender bids Online Last Date for Online 05.03.2025 up to 5:00 P.M Submission of Tender Fee and EMD 07.03.2025 at 03:00 P.M Date of opening of e-Tender Name & address of office Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Hazaribag Inviting tender 06546-270485 Contact no. of e-Procurement officer

Note:- 1.) Only e-Tender will be accepted.

E-mail of e- Procurement

officer

2.) Published Estimated Cost may be increased or decreased.

3.) Further details can be seen and Mode of Submission of Online Tender/Tender Fee/EMD through http://jharkhandtenders.gov.in

**Executive Engineer,** 

Minor Irrigation Division, PR 346271 (Minor Irrigation)24-25\*D Hazaribag.

eemidhbg-cemr-jhr@nic.in

## ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ସରଜାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ

ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ସରକାର କସରତ ଆରୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ଶୀଘ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ୬ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ । ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ୭୯୪ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବାବେଳେ ଓ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଗତ ୪୦ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ବ୍ଲକ ସୂଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରୟାର ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ, ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାଜପା ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ହୁହୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରନର୍ଗଠନ ହୋଇଥାଏ । ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ରେ ବିଭାଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ୨୦୨୭ରେ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପାଳି ଜିଲାର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ୪୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ବାଲେଶ୍ୱରର ନେଇ ପ୍ରକିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ କୋରାପୁଟର ବୋରିଗୁନ୍ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓ ଦଶମନ୍ତପୁର, ଗଜପତିର

ମୋହନାରେ ୩୯ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁରରେ ୩୩ଟି କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁଦ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ କରିବେ l ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଥରେ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପୂଣି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆରୟ କହିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ୧୯୮୪ରେ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ କରି ୩୦୪ରୁ ୩୧୪କୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୧୭ରେ ବିଜେଡି ସରକାର ୫୦୦ ପଞ୍ଚାୟତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଏବେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।

ଲାଇନ୍ରେ ସମୟ ଆନ୍ଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ସହିତ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ ନୂଆ ବ୍ଲକର ମାନଦଶ୍ଚ ଏନେଇ

ମାଞ୍ଚର ଗ୍ରାଉଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଗାଲ୍ଲାନାଇକ୍ଡ (Galvanize ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲ୍ଟର ଯୋଗାଣ । ାର୍ଯ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ : ৄ₹ 35.75 ଲଃ ଅବଧ : 12 ମାସ । ଟେଷର ବନ୍ଦ ହେବା ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଏହ ଇ-ଟେଷରଗୁଡ଼କ ନମନ୍ତେ ଡାକ/କୋରୟର/ପୀକ୍ ଜରିଆରେ ଜିମ୍ଭା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ ପଠାଯାଇଥିବା କୌଣଦି ମାନୁଆଲ ପ୍ରଥାବ ଅଫର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ସଦ୍ୟପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଫାର୍ମ (Firm)ର ଲେଟର ହେଡ଼ରେ ଦାଖଲ

ରାଯାଇଥିବ । ଏହିଉଳି ସମୟ ମାନ୍ଆଲ ଅଫରଗଡିକ ଅବୈଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ବିଚାର ବିନା ବିଧିବ ରୂପେ ନାକଚ କରାଯିବ । . ପରୋକ୍ତ ଇ-ଟେଷରର ସମୟ ବିବରଣୀ ଇ-ଟେଶର କଥମଣ ସହିତ ଓ୍ୱେକ୍ସାଇଟ୍ www.ireps.gov.in ରେ ଉପଲ

ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଂ.: ଏସ୍ଟି-ଓଟି-ଇଏଲ୍ବି-୦୪

ଏଲ୍ସି-୨୪-୨୫, ତାରିଖ: ୧୦|୦୨|୨୦୨୫ | ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତରଫରୁ ବରିଷ୍

ଡିଏସ୍ଟିଇ (ସିଓ)/ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ, ଖଡ଼ିଗପୁର-

୭୨୧୩୦୧ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇ–ଟେଈର ଆହ୍ୱାନ

କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ୧୨.୦୦ ଘଟିକାରେ ଖୋଲାଯିବ

କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା: ନିମ୍ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି

ଅଂଶ (i) ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ଏଲ୍ସି ନଂ. ପିଏଚ୍-

୧୮, ପିଏଚ୍-୨୩, ପିଏଚ୍-୪୬, ପିଏଚ୍-୫୫, ପିଏଚ୍-

୫୯, ଟିଡି-୧୦ ଏବଂ ଟିଡି-୩୫; ଅଡି ପୁରୁଣ। ନଅ

ଗୋଟି ଇଲେକ୍ତ୍ରିକ୍ ଲିଫ୍ଟି ବ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ଇଏଲ୍ବିର

ବିଭିନ ଅଂଶର ଶ**ର୍ଭି ଯୋଗାଣ ଉପକରଶଗୁଡ଼ିକୁ** 

ଆର୍ଡିଏସ୍ଓ ଅନୁମୋଦିତ ଆଇପିଏସ୍ରେ ପ୍ରତିବଦ<mark>ନ</mark>

କରିବା । (ii) ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ୦୪ ଗ<mark>ୋ</mark>

ଏଲ୍ସି ଫାଟକର ଇଲେକ୍କ୍ରିକାଲ ଲିଫ୍ଟି ବ୍ୟାରିୟର୍<mark></mark>

ମେକାନିକାଲ୍ ଲିଫ୍ଟି ବ୍ୟାରିୟର୍କୁ ରୂପାନ୍ତର<mark>ି</mark>

କରିବା I <mark>ଟେୟର ମୂଲ୍ୟ</mark>: ₹୧,୭୩,୮୯,୭୪୨.୪୭

ଅମାନତ ଜମା ଭାଶି: ₹୨,୩୭,୦୦୦ା ଟେୟ<mark>ଟ</mark>

କାଗଜପତ୍ର ମୂଳ୍ୟ: ଶୂନ୍ୟ | ଖୋଳାଯିବା ତାରି<mark>ଖ</mark>

ତା**୦୬**ା୦୩।୨୦୨୫ରିଖ**ା ସମାସ୍ତି ଅବଧ୍: ୧**୨ ମାସ

<del>ଦାଖଳ ତାରିଖ</del>: ତା**୦୬**ା୦୩।୨୦୨୫ରିଖ ୧୨.୦

ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଟେଊରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ/ ବର୍ଣ୍ଣନ<mark>।</mark>

ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ତଥା ନିଜର ବିଡ୍<sup>ଅ</sup>ନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦାଖ<mark>ନ</mark>

କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଟେ<del>ଷ</del>ରଦାତାମାନେ ୱେବ୍ସାଇ<mark>ର</mark>

www.ireps.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି

ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଶସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଆ<mark>ଳ</mark>

ପୁବ ତଟ ରେଳପଥ

ଇ-ଟେଷର ବିଜ୍ଞସ୍ତି ସଂ. ETELCONBBST-

ମ<mark>ର୍ଯ୍ୟର ନାମ :</mark> ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ର<mark>ୋ</mark>

ୀଷଳରେ ରାଣୀତାଲ ଜଙ୍କସନ୍ କ୍ୟାବିନ୍ (RLJC

ଠାରୁ ଯଖପୁରା (JKPR) ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀ

ଟେଶର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଦୁଷ୍ଟବ୍ୟ : ଏହି ଇ-ଟେଷର ନିମନ୍ତେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଟେଶର ବନ୍ଦ ହେବା ତାରିଖର 15 (ପଦର) ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖେବ୍ୟାଇଟକୁ ପୁନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଟେଶରଦାତାମାନଙ୍କୁ ପରାମଣ ଦିଆଯାଉଅଛି । ଟେଷରବାତା/ ବିଡ଼ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଏପାଯାଖାପଙ୍କୀ ୧୫୬୬ଟମଟା ବଞ୍ଚନମନଙ୍କ ପାଖରେ ନଲ୍କର ଭାବେ ଲ୍ଲାସ-III ଡିକିଟାଲ ସ୍ନାକ୍ଷର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ IREPS ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଚୀକୃତ

ହୋଇଥିବେ । କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟେଷରଦାତା/ବିଡ଼ରମାନେ ଇ ଟେଷରିଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଟେଷରଦାତାମାନେ ଟେଷରଦାତାମାନଙ୍କ ନିମରେ ଉଦିବ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ୟଟର୍ଡ଼ି ଆକାଉଣାଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାଞ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ରର ହୋଇଥିବା ଅନୁଲଗ୍ମକ-B, G ଏବଂ G1ର ଦାଖଲ ସହିତ, ଟେଷର ନଥିପତ୍ର ଋପୁର 2ର ଅନୁଲଗୁକ I, ଟେଷର ଫର୍ମ (ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟ)ର ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ, ପାରା 3.1 (ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ) ସହିତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଉପ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯତ୍ତୀ (ନିର୍ମାଣ-III)/

#### OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER NATIONAL HIGHWAY DIVISION, CHAIBASA

Very Short Term Notice Inviting Tender Tender Reference No. :NH/CHAIBASA/2024-25/01

The undersigned, on behalf of the Governor of Jharkhand, invites percentage rate bids for the work mentioned in the table below through e-Procurement from eligible and approved Contractors, registered in appropriate class as mentioned in column 6 of the table with Road Construction Department, Government of Jharkhand. The bid shall be submitted online in the website http://jharkhandtenders. gov.in. The bidder(s) should have necessary portal enrolment with their own Digital Signature Certificate:

| SI.<br>No. | Name of the work                                                                                                                                                                                 | Estimated<br>Cost<br>(Rs.) | Earnest<br>money<br>(Rs.) | Cost of<br>Tender<br>Paper (Rs.) | Class of<br>Contractor<br>eligibility | Time of<br>Completion | Name of the<br>Concerned office                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                | 3                          | 4                         | 5                                | 6                                     | 7                     | 8                                                                   |
| 1          | Installation Metal beam<br>Crash Barrier Under Road<br>safety Work of Existing<br>Road from km 67.00 to<br>101.00 of NH 75 E(New<br>NH-20) in the state of<br>Jharkhand for the year<br>2024-25. | 1,34,56,101=0<br>0         | 2,70,000=00               | 10,000=00                        | 2                                     | 30 days               | Executive<br>Engineer,<br>National Highway<br>Division,<br>Chaibasa |

Period of availability of tenders on line/date & time of bidding on-line/last date of seeking clarification/date

| SI. No. | Procurement<br>Officer                                        | Place of Opening (online opening)                                                                                                                                            | Availat<br>tender on-lin       |                                 | Date &<br>Time of opening of |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|         | 10.000,000                                                    | (A-000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                      | From                           | То                              | tender                       |
| 1       | 2                                                             | 3                                                                                                                                                                            | 4                              | 5                               | 6                            |
| 1       | Executive Engineer,<br>National Highway<br>Division, Chaibasa | Chief Engineer (Comm)-cum- Nodal<br>Officer, e-Procurement Cell, Road<br>Construction Department, Jharkhand,<br>1st Floor, Engineer's Hostel No2,<br>Dhurwa, Ranchi - 834004 | 11.02.2025<br>from 05:00<br>PM | 18.02.2025<br>Up to 03:00<br>PM | 19.02.2025<br>At 3:00 PM     |

Bidders please note that 'Bid Security' has to be submitted in prescribed Performa only. For further details visit us on above mentioned web site. Any Amendment/Corrigendum will be published on porta of http://jharkhandtenders.gov.in only. Bidders will be bound to follow all Amendment/Corrigendum and requested to check portal http://jharkhandtenders.gov.inon regular basis before the date and time of Submission. Executive Engineer, PR 346268 West Singhbhum (24-25)\_D

National Highway Division, Chaibasa

Plot No. N-17/2, Nayapalli, Bhubaneswar- 751 012 Phone No.: (0674) 2390195 (Off), Fax No. (0674) 2395844, E-mail ID: olicItd123@bsnl.in, olicItd@ymail.com, http://odishalift.com NATIONAL COMPETITIVE BIDDING THROUGH <u>e-Procurement</u> NO.IT-12/2025-1118 / OLIC, DATED10.02.2025 No.CAD- 2519:- The Managing Director, OLIC Ltd., Bhubaneswar invites online tender in percentage rate through e-procurement for installation

(A Government of Odisha Undertaking)

electrification, energisation & commissioning of deep borewells in Ganjan district of Odisha State. Interested bidders may visit website: www. tendersodisha.gov.in to view and download Detailed Tender Call Notice and bid documents. The bids should be submitted only online in the website www tendersodisha.gov.in. Important features of this NCB are as under:

Brief description of work Installation, electrification, energisation & commissioning of Deep borewells in Ganjam district (05 Pakages)
Varies from Rs.793.30 lakhs

Rs.1264.96 lakhs From Dt.12.02.2025 to Dt.10.03.2025 C Date and time of availability of : bid document in the portal (upto 17.00 hours)

D Last date / time for receipt of : Dt.10.03.2025 upto 17.00 hours

bid in the portal Last date of seeking clarification : Dt.25.02.2025 upto 17.00 hours Technical bid will be opened on : Dt.11.03.2025 at 11.00 hours Any addendum / corrigendum / cancellation of tender will be available

Authority reserves the right to accept / reject any or all the tenders increase or decrease the quantities of work put to bidding without assigning Sd./- MANAGING DIRECTOR

OLIC LTD., BHUBANESWAR

OIPR-32135/11/0014/2425

### 'म्यूल' खातों की पहचान के लिए एआई का उपयोग की योजना : शाह मोदी-ट्रंप भेंट से पहले भारत कर सकता है टैरिफ कटौती

म्यूल' खाते चालू होने से पहले ही बंद करने की कोशिश हो रही

नई दिल्ली। ए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) का इस्तेमाल कर उन 'म्यूल' खातों की पहचान करने की योजना बना रही है, जिनमें साइश्रर जालसाज ठगों को रकम जमा करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ये 'म्यूल' खाते बालू होने से पहले ही बंद कर दिए जाएं। 'म्यूल' खाता वह बैंक खाता होता है, जिसका उपयोग भन शोधन या अवैध गतिविधियों से हासिल धन के लेन-देन के लिये किया जाता है। शाह ने सोमवार



को 'साइत्रर सुरक्षा और साइत्रर अपराथ' विषय प गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को अध्यक्षता करते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सरकार की साइवर अपराध निगरानी और इसका पता लगाने वाली शाखा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को सिफारिशों के आधार पर 805 ऐप एवं 3,266

भारत को व्यापार के मामले में टैरिफ अब्यूजर कर चुके हैं ट्रंप

नई दिल्ली। एजेंसी। पीएम मोदी 12-13 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ने एक सरकारी हा समाजार एजसा न एक सरकारा अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति रूप की मुलाकात से पहले भारत संभावित ट्रेंड वॉर से बचने के लिए कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कटौती की



योजना बना रहा है। बुधवार और गुरुवा को मोदी की अमेरिका यात्रा ऐसे स हो रही है जब ट्रंप कई देशों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य बैश्विक व्यापार संबंधों को अमेरिका के पक्ष में नया स्वरूप देना है। उम्मीद है कि मोदी अपनी यात्रा के दौरान

ब्रसेल्स । ए । धूरोपीय संघ ( ईयू) की प्रमुख उस्तेता वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार की कहा कि इस्पात तथा एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क को लेकर जवाबी कार्रवाई स्टेडिक्स स्टेडिक्स कहा कि इस्पात तथा एत्युनान्यम पर अभारका शुक्क का तकर जावाब काराव्यु पूरोपीय संघ ने अमेरिकी शुक्क के खिलाफ जयाबी कार्रवाई की दो चेतावनी इससे 27 देशों के समृह को कई बार्बा कर उठाने पड़ेंगे थॉन डेर लेवेन ने आमिला गएपति डोनाक टेप के इस्पात और एत्युमीन्त्रम पर शुक्क तमाए जने पर बकन में कहा, 'ब्रोपीय संघ अपने आर्थक हितों मी रक्षा के लिए करम उठाएगा।' यूरोपीय संघ ने अमेरिकी शुल्क के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी

ट्रंप के साथ टैरिफ पर चर्चा करेंगे और ट्रप क साथ टारफ पर चर्चा करन आर भारत संभावित मिनी ट्रेड डील पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने वह स्पष्ट नहीं क्रिया है कि किन देशों पर इसका

Hindi Newspaper: Navabharat / Date: 12.02.2025 भारत सभावित ट्रेड वॉर से बचने के लिए कुछ अमेरिकी सामानों पर देगा राहत

को क्यापए के प्राप्तने में टैरिफ अस्तान कहा था और इस बात पर जोर दिया था कि भारत को निष्पर्ध द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की और बढ़ने के लिए अधिक अमेरिकी निर्मित

अमेरिका को आयात से ज्यादा निर्यात कर रहा भारत 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार 118 अस्ब डॉलर पार कर गया, जिसमें भारत को 32 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस मिला। यानी भारत ने अमेरिका को ज्यादा सामान बेचा, बनिस्बत इसके कि उसने अमेरिका से खरीदा। अब जब अमेरिका ने चीन, मेकिसको और जब अमारका न जान, नावसका आ कनाडा पर टैरिफ बड़ाने का एलान किया है, तो भारत का निर्यात और ज्यादा बड़ने की संभावना बनती है।

न्यूज डायरी

## अगले पाच साल भारत में ऊउ क्षेत्र में अपार संभावनाएं : मं

प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को ऑनलाइन संबोधित किया

प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से कहा- भारत तेजी से इलेक्ट्रिक परिवहन की तरफ जा रहा

हस्ताक्षरित संविधान की मूल प्रति का ही प्रकाशन हो : धनखड़ नई दिल्ली। ए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखंड ने मंगलवार को सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस्ताक्षरित संविधान की उस मूल प्रति का ही प्रकाशन (डिजिटल सहित) हो, जिसमें भारत की 5,000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित करते 22 चित्रों का उल्लेख है। राज्यसभा में शुन्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी न शुन्यकाल के दारान भारताय जनता पाट (भाजपा) के सदस्य राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद सभापति ने यह व्यवस्था दी।

#### पोप ने प्रवासियों के निर्वासन पर ट्रंप प्रशासन की निंदा की

स्त्र प्रशासन का निवास के बड़े पैमाने पर निवासित किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को ट्रंप प्रशासन को निरा को और आगाह किया कि इसका अंजाम बुरा होगा। इन्होंने कहा कि केवल उनको अवैध स्थिति के कारण जबरन निर्वासन करना प्रवासिये को उनको अंतर्निहित गरिमा से वंचित करता है। फ्रांसिस ने अमेरिका के बिशपी को इस संबंध में एक पत्र लिखा

#### राहुल-प्रियंका कांग्रेस, देश और इंडिया के लिए बोझ : तरुण चुघ

इंडियों के लिए बोझे : तिरुण युध कम्मू। ए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरण चुन में मंगलवार को कहा कि देश की जनता ने 'इंडिया' गठकंपन को नकता विद्या है। उन्होंने क्रांधिम नेता शहल गांधि और प्रिथंका गांधी को उनकी पार्टी, विश्ली गठकंपन और देग के लिए बोख बाताया पुष्प ने बार चिन्हाटा नगर स्थित भाजपा पुष्पक वाल में प्रीनदर्वाल उपण्याप और रयामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं के अनावरण के बाद कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है और न ही देश के लिए कोई दृष्टि।

#### भारतीय प्रवासियों पर अमेरिका को संदेश देना होगा : थरूर

नई दिल्ली। ए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि निस तरह से भारतीय प्रवासियों के एक जत्थे को अमेरिका से निर्वासित किया गया, उससे स्वाभविक रूप से भारत में काफी चिंत रखाभावक रूप स भारत म काफी चिंती और मुस्मा है तथा बैड़ सरकार की इस मामते में जीवत माध्यम से वाशिगटन को. एक सरेश देना होगा। धरूर में 104 भारतीय प्रवासियों को आमेरिका से भेजे के जाने से जुड़े स्वाल पर कहा, 'निश्नीसन के तरीके से स्वाणीविक रूप से भारत में बहुत अधिक चिंता, देश और यहां तक कि गुस्सा है।

#### लोकसभा अध्यक्ष ने कहा: मैं मछली नहीं खाता, शाकाहारी हूं

नई दिल्ली। ए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में सांसद राजीव प्रताप रूडी की एक टिप्पणी तालार प्रभाव क्या के वह मछली नहीं खाते और शालाहारी हैं। सदन में मत्स्वपातन, पशुपातन और डेयरी मंत्रात्व से संबंधित पूरक प्रश्न पुछते हुए रूडी ने कहा कि देश में 95 करोड़ लोगू मछली खाते हैं और एक् . २२ कराड़ लाग मछला खाते हैं और एंक त्रोड़ लोग मछली की पैदाबार और मछली कड़ने से जुड़े हैं।

नर्ड दिल्ली। एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश में अगले पांच वर्षों में महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा बदलाव लक्ष्यों की प्राप्ति के संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगाबाट नबीकरणीय ऊर्जा, 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य के साथ-साथ तेल व गैस परिसंपत्तियों के लिए बोली के नए दौर की शुरूआत करने का उल्लेख करते हुए कहा, 'नए निवेश की संभावनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भारत में संभावनाओं का पता त्नगाएं गे ।

मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 (आईईडब्ल्यू 25) को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा, 'इन क्षेत्रों में निवेश की कई संभावनाएं हैं।' प्रधानमंत्री ने निवेशकों से कहा, 'आप सिर्फ भारत कर्जा सप्ताह का हिस्सा नहीं हैं। आप



#### ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं के पांच स्तंभ

श्री मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं पांच स्तंभों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे पास संसाधन हैं जिनका हम उपयोग अधार्यात हैं। उत्तरीने कहा, 'हमारे पास संसाभन हैं जिनका हम उपयोग कर रहें हैं। हम अपने प्रतिपात्त्वाला लोगों को जाबाबात के लिए प्रोत्साहित कर रहें हैं। तीसरा, हमारे पास आधिक ताकत और एउनीतिक स्थितत हो। 'प्रात्मानों के कहा कि भारत स्थानीय विचित्त्वाला संसाधित दे रहा है। 'प्राप्तानों के कहा कि भारत स्थानीय विचित्त्वाला संसाधित दे रहा है तथा पिछले 10 क्यों में सौर पीवी मॉड्यूल विनिम्मीण स्थानत दे योगावाट हो में हैं। बैटरी व भंडारा प्रीयाता हमें स्थान हमें तथा प्राप्त हमें ने स्थान रहा में विचित्त्वाला राज्य विनिम्मीण के अध्यस्त के सौर में प्राप्तानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से इस्ट्रीट्स परिवहन को ओर बढ़ रहा है। उत्तरीन इस सोन में इतन बेड दे कि वो मांगों को पूरा करने के लिए लातित कार्रवाई की आवश्यकता पर बला दिया।

एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।' उन्होंने न केवल अपनी वृद्धि को आगे बढ़ा कहा, 'सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रहा है, बल्कि वैश्विक वृद्धि को भी 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत चल दे रहा है।' ऊर्जा बदलाव का न्यायसंगत होना जरूरी, निकट अवधि में जीवाश्म र्डंधन जरूरी: परी

भारत ने 'ऊजां बदलाव' को लेकर बढरी समझ विकासन करने का आना बदले हुए मंगानवर को कहा कि प्रदूणकारों जिलाप ईचन से रक्षण्य सोनी को तरफ रख केवल वढी करना चाहिए, जढा विकासशील देशों को जरूरते पूरा करने को लिए ससनी ऊजी उपलब्ध हों। में उपलब्ध हों। पेट्रॉलियम एवं प्राकृतिक केवा मांवी हरदीए सिंह पुनी ने मही 'भारत ऊजी संस्ताह' (आईटेक्ट्यू) के उदुलाइट्य स्त्र को संबोधित करते हुए कहा कि उजों बदलाव का मत्त्रवा किसो भी ईचन का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन न होकर एक ऊजी कीत को जगह स्त्रस्था से अपनी अधिकाश उर्जी मांव को कोवात, तेक और प्रकृतिक सेन सेने बीजायम ईचनों से पूरा करते हैं। हालांकि, प्रदूषणकारी कोतों से पितने बात ईचन से हटकर सन्त्रीकरणीय उर्जी की ामता बात हैमन से हटकर नवीकरणीय कर्जा की तरफ रख करते का आधा किया जा रहा है जीकन भारत का मानना है कि यह कदम अचानक नहीं उठाय जा सकता है; हमकी वजह वह है कि बदलाव की प्रक्रिया में तेल एवं वैध के साथ कीवला से विकास प्रक्रिया में जिल एवं वैध के साथ कीवला भी जर्जा की मांग पूरी करते में आहम भूमिका निभागरा। पूरी ने कहा, "कर्जा बदलाव की अवधारणा के लिए गहरी समझ की जकरत है।

#### आप में असंतोष की अटकलों को मान ने खारिज किया

#### पाला बदलना कांग्रेस की संस्कृति रहा है : मुख्यमंत्री मान

नई दिल्ली। ए। पंजाब के मुख्यमंत्री धगर्वत मान ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई में असंतोष की अटकलों को खारिज किया और कहा कि कांग्रेस नेताओं का पार्टी बदलने का इतिहास रहा है जबकि आप नेता समर्पित रहते हैं। मान ने कहा 'पाला बदलना कांग्रेस मान न कहा, पाला बदलना काउस की संस्कृति हैं; वे दूसरों के बारे में बात करते हैं लेकिन अपनी चिंता नहीं करते। मैं प्रताप सिंह बाजवा से पूछ्ंगा कि दिल्ली में उनके कितने विधायक हैं।' उन्होंने कहा, 'बाजवा वर्षों से ऐसे दावे करते रहे हैं, उन्हें यह कहने दीजिए।' कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हाल में दावा किया था कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के 30 से अधिक विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और पाला बदल सकते हैं। बाजवा ने कहा था कि इन विधायकों को एहसास हो गया है कि आप के साथ रहना लंबे समय में राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं हो सकता।

नहां हा सकता। कांग्रेस नेता के दावों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा, 'बाजवा यह बात कहते रहे हैं। उन्हें हमारे विधायकों की गिनती नहीं



## से चुनाव लड़ने की बात गलत: आप

गलत : आप हिल्ली विकासभा चुनाव में अब की हार के बाद अब पंजाब में उसकी एकमात्र राज्य सरकार है। इन अटकारों के मीच कि के जीवाल पंजाब की राज्योंति में बहुई पृथिका तिमा सकते हैं या स्वार्त हुई स्पृध्याना विभागसभा सीट से चुनाव राष्ट्र सफते हैं, अप पंजाबी ने ऐसी ज्ञवसी को स्वार्तिज किया है।

चाहिए कि दिल्ली में कांग्रेस के कितने विधायक हैं।' मान ने कहा कि आप नेता 'बिना किसी लालच के समर्पित' नेता हैं। मुख्यमंत्री मान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैतक किए जाने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। यह बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की हार के बाद हुई, जिससे इसकी पंजाब इकाई में अस्थिरता की अटकलें तेज हो गई। मान ने कहा, 'वह (बाजवा) पहले भी दावे करते रहे हैं कि 20 विधायक या 40 विधायक उनके संपर्क में हैं।

## आयोग ईवीएम का डाटा डिलीट न करे : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसियां। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चुनाय के बाद इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग मशोनों (इंवीएम) का डाटा डिलीट न किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईबीएम का डाटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है और प्रक्रिया क्या होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईबीएम से कोई भी डाटा डिलीट न किया जाए और न ही इसमें कोई नया डाटा डाला

ईवीमए के बर्न किए गए माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच की मांग

जाए। चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बनें करने की प्रक्रिया क्या है।

#### ट्रंप ने कहा- प्लास्टिक के स्टॉ का इस्तेमाल हो, आदेश जारी

टन। ए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाधागटना ए। अमारका क राष्ट्रपति डानाल्ड ट्रंप न सोमवार को कहा कि वह संघीय स्तर पर कागज के स्ट्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि वे (ह) में इस्तारित पर प्राविचन (राग स्ट है, पनाकि प 'टिकाऊ' नहीं होते। उन्होंने कहा कि इसके बजाए एलास्टिक के इस्तेमल की तरफ बढ़ना चाहिए। कई अमेरिकी राज्यों और शहरों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध तगाया है, और कुछ रस्तर्य अब ग्राहकों को उन्हें नहीं देते हैं। 'स्ट्रॉज टर्टल आइलैंड रीस्टीरेशन नेटजर्क' के अनुसार, अमेरिका में प्रतिदित 39 करोड़ से अधिक स्टॉ का उपयोग किया जाता है।

## हथियारों के लिए एआई का इस्तेमाल होने देगा गुगल

मेल**वर्न**। ए। गूगल ने इथियारों या निगरानी में कृतिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग नहीं करने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से पिछले सप्तार चुपचाप हाथ पीछे खींच लिया। गूगल का यह निर्णय हाल ही में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने तथा एआई के ऑधक सैन्य अनुप्रयोगों को समायोजित करने के चलन के बद आया है। गगल ने पहली बार 2018 में प्रकाशित अपने एआई

#### अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से चुपचाप हाथ पीछे खींचे कंपनी ने

सिद्धांतों का नया स्वरूप जारी करते हुए उन क्यानों को हटा दिया जिनमें निम्नलिखित का अनुसरण न करने का आदा किया गया था: ऐसी प्रीक्षोंगिककां जो समग्र रूप से नुकसान पहुंचाती हैं।



#### एड शीरन व अरिजीत सिंह एक साथ दिखे स्कूटर पर

नई दिल्ली। ए। भारतीय गायक अरिजीत सिंह व ब्रिटिश गायक एड शीरन का एक साथ स्कूटर पर घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसंसकों द्वारा इसे अब तक का सबसे अच्छा वीडियो बताया जा रहा है। रिपोर्टी के अनुसार, इस समय गीरन अपने मेथेमेटियस ट्र के लिए भारत आए हुए हैं। शिरू को शीरन के साथ वाइन पर सवार होकर बिना सुरक्षाकर्मी के घूमते हुए देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार गायक जोड़ी को परिषम बंशाल के मुरिदाबाट जिले में सिंह के गृहनगर जियागित की

#### 'गलत तरीके से' नौकरी पाने वाले 'बाहर हो सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। ए। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को कहा कि जिन लोगों को 'गलत तरीके से' नौकरी मिली है, उन्हें 'बाहर किया' जा सकता है। इसी बयान के साथ उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार देने के कलकता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के निर्णय के खिलाफ याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रथान न्यायाधीश संजीव खन्ना और -यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा, 'दलीलें सुनी जा चुकी हैं।



स्खा जाता है।' पीठ उस समय नाराज हो गई नाराज हा गइ जब कुछ अध्यर्थियों की

दवे ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाष्याय के कथित राजनीतिक पूर्वाग्रह का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने (उच्च न्यावालय का हिस्सा रहते हए) कथित भर्ती घोटाले की हुए) कथित भर्ती घोटाले का सीबीआई जांच का आदेश दिया था। दवे ने कहा कि यह तथ्य है कि उवत न्यायाधीश (गंगोपाध्याय) ने कुछ राजनीतिक नि<mark>र्णय लिया था।</mark>

#### एआई के 'अत्यधिक विनियमन' का अमेरिका ने किया विरोध

पेरिस। ए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी तेंस ने मंगलवार को विश्व के नेताओं और तकनीकी उद्योग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि कृत्रिम मेशा (एआई) उद्योग में 'अल्पधिक विनियमन' तेजी से बढ़ते इस उद्योग को समाज

मस्क के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' प्रतिबंध पर वेंस कि ट्रंप प्रशासन ने चेताया करेगा कि अमेरिका पर प्रतिबंध पर वेंस

कर देगा। वेंस ने एआई पर यहां आयोजित शिखर सम्मेलन में कहा

में विकसित एआई प्रणातित्वां वैचारिक पूर्वाग्रह से मुक्त हों और अमेरिका 'अपने नागरिकों के अणिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कथी प्रतिबंधित नहीं करेगा'। वेंस के संबोधन से कृतिम मेधा के प्रति युरोप के नियासक दृष्टिकोण

मखाने का इस्तेमाल कई तरह से होता है और स्नैक्स के रूप में तो यह लोगों को खूब भा रहा

## सुपर फूड मखाना ग्लोबल बना, पर खाली हाथ हैं किसान

पटना। एजेंसी। बीते सालों में बिहार का मखाना बड़ी तेजी से आम लोगों से लेकर कुलीन लोगों तक के खाने में शामिल हुआ है। भारत से बाहर भी इसे सुपरफूड का दर्जा मिल रहा है लेकिन इसे उगाने वाले किसानों को उतना फायदा नहीं मिला। जेन-जी का मनपसंद स्नैक्स और दुनिया भर में सुपर फुड बना फॉक्सनट याँ मखाना इस बार भारत के बजट में अहम स्थान पर रहा। प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्वों से धरपुर मखाना बेहतर इम्युनिटी बुर्टर ना ठ, जिल्म नाम नाम वर्ग वर्गा वर्गा है। अकेले बिहार में पिछले दस साल में मखाना का कारोबार पांच हजार करोड़ रुपए में ज्यादा का हो गया है।

ना उगाने में बिहार अग्रणी है, किंतु है। मखाना को पश्चिमी देशों में बेचने में



किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। जानकार बताते हैं कि तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण प्रति हेक्टेयर तीन-साढे तीन टन की बजाय किसान डेढ़-दो टन ही उपजा पाते हैं। उन्हें मीसम की मार भी जेलनी पड़ती हैं। तेज थूप से पत्तियों को नुकसान पहुंचता है। विश्व का 90 फीसदी मखाना भारत में पैदा होता

#### दनिया भर में मखाने की बढ़ी मांग भारत मखाने का सबसे बड़ा

देश है। घरेलू तथा वैश्विक बाजार में इसकी मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। फिल्हाल बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस और खाड़ी देशों में नियांत किया जाता है। इसका बोटैनिकल नेम यूरीएल फेरॉक्स है।

कई तरह की चुनौतियों पेश आती हैं। स्टोरेंज की उचित व्यवस्था नहीं होने और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी के कारण किसानों को कंपनियों को अपना माल कम कोमत पर बेचना पड़ता है।

दरभंगा के मखाना किसान श्याम सहनी बाते हैं कि दो से तीन-चार फीट को गहराई में कमा पानी इसकी खोतों के लिए उपयुक्त होता है। जिस तरह धान की रोगाई के लिए उपयुक्त होता है। जिस तरह धान की रोगाई के लिए इस तरह से होती मुखाने की रखेती कर के लिए हैं मोशे, तैयार बिध्य जाते हैं, इसी तरह अप को जाते है। दिसंबर से अप्रैल के बीच इसकी घु-आई होती है, जिसमें पीचे की मिट्टों में दक्षण जाता है। इसके घर्न परेए को की इसके घर्न परेए को की है। की स्थान के पर पर तो है। जोशे के करी वो मीशोन जाद किना से परेए की को चेवने लगता है। इसकी बीचों को जुन कर निकाला जाता है। उच्छों है कर करने तैयार के जाती है। कर मुखाना को सुखाने के बाद सपर्था-छटाई कर भूत जाता है। अर्थें कर को साहित कर मुखाना निकाला जाता है। इसके बाद सपर्था-छटाई कर भूत जाता है। अर्थें कर कर की मीशोन की आती है।

#### देश का 80 फीसदी मखाना बिहार में होता है

देश का 80 प्रतिशत मखाना विहार के मिथिला और कोसी-सीमांचल क्षेत्र के करीज 40 हजार हेक्टेयर इलाके में होता है। अब इसकी खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। खेती के लिए ज्यादातर केटलैंड (जल-जमान वाले क्षेत्र) का इस्तेमाल होता है।



नालको भवन, प्लाट सं. पी/1, नमापल्ली, भूवनेक्षर - 751013, (अनेदिशा) गोलकीयन: L27203OR1981G01000920 एक नवरत्न कम्पनी

#### शेयरघारकों हेतु सूचना

मेरेशक मंडल ने 10 02 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वितीय वर्ष 2024-25 के लिया 4/- स प्रति होपर की दर से अंतरिम लाभांश स्वीकृत किया है।

हम सबंध में, सुधान की जाती है कि मुक्तबार, 14 फरवरी, 2025 को बितीय वर्ष 2024-25 के द्वित अंतरिम लाभाश के भुगतान के लिए रिक्कॉर्ड विकि? के रूप में तम किया गया है।

रोबरफारको होतु लागोर अग 01.04.2020 से कर योग है और शतुमार, कंपनी आवकर अधिनय 1991 के प्राथमनों के अनुमार को गर कर (ट्रिडीएश) कारेटी शेरफारक मित्रके प्राथम सेंग्र पेरिक्त वे प्राथम है, उने अपने कार्याची आरोड़ी, निसामेंकर हा, हिए के स्वा माजार अध्यक्त स्वाधीज करते होता। अन्यवा सेंग्री के दिनोंक 17.05.2023 के मानदर विश्व के अनुसार लागांच्य तरिए केमाईसे विश्व

माग ही, हो परभारक, जिन्हेंने रूपांत पर रीजीएस करीती न किए जाने हेतु नकारतपु कार्म 15 जाव नहीं किया है, से राष्ट्रकार्य आरटीए अपना कंपनी के पाम कथा करने हेतु अनुरोग है।

रिकार्ड विभिन्न के बारे में जानकारी कंपनी की चेवसहूट वर्षात www.nalcoindia.com अ स्टीक एक्सपेटी की चेवसाइटी www.bseindia.com और www.nseindia.com

कृते नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटे

(बी.के.साडु) कंपनी सचिव

# Vi loss narrows to ₹6,609 crore in Q3

odafone Idea (Vi) on Wednesday reported a net loss of ₹6,609.3 crore in the third quarter of the current financial year (Q3FY25), which was 5.3 per cent lower than the ₹6,985.9 crore loss seen in the corresponding quarter of FY24. On a sequential basis, however, the firm's net loss was 7.8 per cent lower than the ₹7,175.9 crore loss in O2FY25.

The commercial launch of 5G services in Mumbai is planned for March this year, and Delhi, Bangalore, Chandigarh, and Patna for April, the company has said.

Q3FY25 was the third consecutive quarter where the financially beleaguered telco managed to cut its headline loss figures. Lower financing costs helped the company, shrinking to ₹5,939 crore in Q3, down 8.8 per cent from ₹6,518 crore in the same quarter of FY24. Meanwhile, the telco's revenue from operations rose by 4.16 per cent in the latest quarter, coming in at ₹11,117 crore, up from ₹10,673 crore in Q3FY24.

The average blended revenue per user (Arpu), a key performance metric for telecom firms, rose to ₹173 in Q3, up from ₹166 in the preceding quarter. However, the company clarified the Arpu figure is ex-M2M.

The company's 4G subscriber base rose million from the 125.9 million in O2. This was due to a fast addition of 10,400 sites in Akshaya Moondra said.

| IN NUMBERS     |          | V     |       |  |
|----------------|----------|-------|-------|--|
| Consolidated   | INA      |       | nge % |  |
| figures        | Q3FY25   | 0-0-0 | Y-o-Y |  |
| Revenue (₹ cr) | 11,117.3 | 1.69  | 4.16  |  |

Other income (₹ cr)

PAT (₹ cr)

the 1800 MHz and 2100 MHz bands, primarily to increase network capacity. Vi's 4G users had shrunk by 0.8 million in Q2, after recording 11 straight quarters of 4G subscriber additions.

249.5

163

-6,609.3

-16.83 902.01

12.41

Loss

4.49

"We are on track to achieve our 4G population coverage target of 1.1 billion by March 2025, and plan to further increase it to 1.2 billion, or 90 per cent of population," the company said.

"We are driving investments, and the velocity of capex deployment is set to accelerate in the coming quarters. Concurrently, the phased rollout of 5G to 126 million in Q3, up by a marginal 0.1 services is underway, targeting key geographies." Vi's chief executive officer (CEO)

## Maaza steps into billion-dollar club

unit case volume grew 2

per cent, "led by China,

Brazil and the United

States. For the full year,

unit case volume grew 1 per cent, led by Brazil,

India and Mexico," it said

billion dollar brand in

2024," said James Quincey,

chairman and chief execu-

40 per cent stake in

Holdings to the Jubilant

president and chief finan-

cial officer at the company said, "We were looking for

a partner as ambitious as

we are to capture opportu-

nities and has the ability to

Jubilant will add tre-

(formerly Twitter). Anand brought companies like pay-

ments firm Sunrate, travel

tech firm Slice, Openborder,

AI firm Coppier, Cuemath,

"It has been an incredible

journey — filled with deep

learning, meaningful rela-

tionships, and the privilege of

working alongside inspiring

founders, LPs, and col-

leagues," said Anand in a post

to take a break, but did not

mention what the next step

an investor, I was a founder.

Now, I'm excited to return to

building — at the intersection

fund size in the country.

Both said they would like

Anand wrote: "Before I was

The announcement comes

build capacities over time."

tive officer.

Bhartia

Peak XV's Anand,

Lakhani quit firm

Two managing partners at vibrant in the world," said Peak XV, Shailesh Lakhani Lakhani in a post on X

the partners had made con- and other firms into the fold

brand

from the firm. It has been an of these worlds."

began in August 2007, when as the VC firm, earlier known

India's startup ecosystem was as Sequoia India, also cut its

India drove overall growth for

Germany's Hansgrohe in 2024

A year after its India business posted strong growth, Hansgrohe,

the German sanitary fittings manufacturer known for luxury bathroom and kitchen products, is expecting a double-digit

growth on a year-on-year (Y-o-Y) basis in India, through

Hans Juergen Kalmbach, chief executive officer and chairman,

brands, Axor and Hansgrohe. Through the Axor brand, it sells

faucets, showers, sanitary ware, basins, bathtubs, and acces-

sories majorly for luxury homes, five-star hotels, yachts or high-

executive board, Hansgrohe Group told Business Standard.

"India was actually a major growth driver for us last year,"

Currently, the company operates in India through two

of Peak XV.

on LinkedIn.

would be.

Hindustan

"Maaza is now our 30th

Talking about its sale of

Group

Coca-Cola

in an earnings release.

AKSHARA SRIVASTAVA New Delhi, 11 February

India's home-grown drink Maaza entered the billiondollar club in the year 2024, becoming the third brand from global beverage giant Coca Cola's Indian stable to earn this coveted tag. Thums Up and Sprite had joined the club in 2021 and 2022, respectively

Coca Cola Company made this announcement during its global earnings

on Tuesday. The firm recorded net December, John Murphy, gains of \$13 million related to the refranchising of its bottling operations in the country in the December quarter. For the full year, net gains due to refranchising amounted to \$303 million in the country.

In the December mendously (to Coca Cola), quarter, the company's he said.

and Abheek Anand, have quit

the venture capital company. Lakhani and Anand have

been with the firm for 17 and

12 years, respectively. Both

siderable investments for the

Some of the notable invest-

ments made by Lakhani

beauty

Minimalist, which was

acquired by HUL for \$350 mil-

lion. He also represented

travel firm Ixigo, and

Truecaller, which went public. Other investments include

Zetwork, CoinSwitch, Porter,

XV/Sequoia India reaches 17.5

years, I've decided it's the

right moment to step back

incredible journey — one that

in its infancy, to today, where

Hansgrohe India in the coming years.

it stands as one of the most

"As my time at Peak

Healthkart and others.

firm over the years.

## Oberoi parent won't finance **Pune project**

**AKSHARA SRIVASTAVA** New Delhi, 11 February

East India Hotels Limited (EIH) — the parent of the Oberoi group of hotels — on Tuesday said that it will not be proceeding with its proposed investment in a mixeduse project in Pune.

In September last year, the company had announced an investment of ₹254 crore to acquire a 51 per cent stake in Pune-based Muttha Towers II. This was to develop a mixed use project comprising a 175-key Trident Hotel along with a commercial space.

The total cost of the project was estimated at ₹972

The company, meanwhile, recorded a 20.5 per cent year-on-year increase in consolidated net profit to ₹264.45 crore, in the third quarter of FY25.

## Apollo to expand presence in metros with five new hospitals

Mumbai, 11 February

Apollo Hospitals Enterprise is set to expand presence in metro cities during FY26 with the addition of five hospitals that would add over 1.400 beds.

The expansion will include a 500-bed facility in Gurugram, a new hospital in Hyderabad, a women-focused cancer centre in Delhi along with additional facilities in Kolkata and Pune.

Krishnan Akhileswaran, Group chief financial officer (CFO) at Apollo Hospitals, said, "In FY26, we are adding five hospitals with over 1,400 beds, most of which will be started by the end of the year. The additions in Gurugram, Hyderabad, Delhi. Kolkata, and Pune will

talbr



Apollo Hospitals' CFO Krishnan Akhileswaran said the additions will be in Gurugram, Kolkata, Hyderabad, Delhi, and Pune

strengthen our presence in key metro cities where we already have a strong footprint." Overall, Apollo aims to add

3,512 beds across 11 locations over the next three-four years.

expanding its telemedicine services across three key segments: retail consultations through the Apollo 24/7 platform, government partnerships for district hospital support, and corporate collaborations with large public sector undertakings (PSUs).

Addressing the company's focus on cancer care, Madhu Sasidhar, president and chief executive officer (CEO) of Apollo's hospital division clarified that Apollo does not operate dedicated cancer units beyond its proton therapy centre in

Instead, the hospitals maintain a flexible approach to cancer treatment, adjusting bed capacity as needed.



Place : Bhubaneswar

Date: 11.02.2025

NALCO Bhawan, Plot No. P/1, Nayapal (CIN: L27203OR1981GOI000920) A NAVRATNA COMPANY

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

The Board of Directors in their meeting held on 10.02.2025 has approved 2nd interim dividend @ Rs. 4/- per share for the financial year 2024-25

In this connection, Notice is hereby given that, Friday, the 14th February, 2025 has been fixed as 'Record Date' for payment of 2nd interim dividend for the financial year 2024-25 to the eligible shareholders

Dividend income is taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 01.04.2020 and accordingly, the Company will deduct tax at source (TDS) as per provisions under the Income Tax Act, 1961. Shareholders holding shares in physical mode are requested to update their KYC details with the RTA, M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. immediately otherwise dividend amount will be held back till updation of the KYC details, as per SEBI Master Circular dated 17.05.2023.

Further, shareholders who have not yet submitted Forms 15G/15H, as applicable, for non-deduction of TDS on dividend, are requested to submit the applicable Form to the RTA or to the Company.

Information about the record date is also available on the website of the Company i.e. www.nalcoindia.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For National Aluminium Company Limited

(B. K. Sahu) Company Secretary

#### TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

CIN: L29199HR1956PLC033107

Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) Tel No.: 0129-4960482, 2251482 | Website: www.talbros.com, Email: seema\_narang@talbros.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

| Particulars 3                                                                                                           |              | Quarter ended |              |                | Nine Months ended Year ended |                |              | Quarter ende | d            | Nine Mon     | Year ended   |                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
|                                                                                                                         |              | 30-Sep-24     | 31-Dec-23    | 31-Dec-24      | 31-Dec-23                    | 31-Mar-24      | 31-Dec-24    | 30-Sep-24    | 31-Dec-23    | 31-Dec-24    | 31-Dec-23    | 31-Mar-24      |  |  |
|                                                                                                                         | Unaudited    | Unaudited     | Unaudited    | Unaudited      | Unaudited                    | Audited        | Unaudited    | Unaudited    | Unaudited    | Unaudited    | Unaudited    | Audited        |  |  |
| Total Income from Operations                                                                                            | 20,439.88    | 22,015.81     | 20,147.61    | 63,379.31      | 58,341.12                    | 79,086.35      | 20,439.88    | 22,133.61    | 20,147.61    | 63,497.11    | 58,458.92    | 79,204.15      |  |  |
| Profit/(Loss) before exceptional Items and tax                                                                          | 2,941.03     | 3,000.60      | 2,819.69     | 8,583.40       | 7,557.78                     | 10,424.37      | 2,424.80     | 2,698.24     | 2,348.46     | 7,460.30     | 6,461.91     | 8,925.02       |  |  |
| Exceptional items                                                                                                       |              |               |              |                |                              | 4,245.54       |              |              |              |              |              | 7,653.48       |  |  |
| Profit/(Loss) before tax                                                                                                | 2,941.03     | 3,000.60      | 2,819.69     | 8,583.40       | 7,557.78                     | 14,669.91      | 2,424.80     | 2,698.24     | 2,348.46     | 7,460.30     | 6,461.91     | 16,578.50      |  |  |
| Net Profit/(Loss) after tax                                                                                             | 2,382.30     | 2,341.40      | 2,274.72     | 6,785.17       | 6,019.12                     | 10,997.63      | 1,866.07     | 2,039.04     | 1,803.49     | 5,662.07     | 4,923.25     | 12,906.22      |  |  |
| Total Comprehensive income/(loss) for the period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax) | 1,627.32     | 2,088.92      | 3,852.47     | 7,745.78       | 12,351.58                    | 17,336.56      | 1,112.14     | 1,787.50     | 3,382.34     | 6,625.57     | 11,259.03    | 19,249.02      |  |  |
| Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)                                                               | 1,234.56     | 1,234.56      | 1,234.56     | 1,234.56       | 1,234.56                     | 1,234.56       | 1,234.56     | 1,234.56     | 1,234.56     | 1,234.56     | 1,234.56     | 1,234.56       |  |  |
| Earning Per Share (of Rs. 2/- each)<br>(for the period - not annualised)<br>Basic (Rs.)<br>Diluted (Rs.)                | 3.86<br>3.86 | 3.79<br>3.79  | 3.69<br>3.69 | 10.99<br>10.99 | 9.75<br>9.75                 | 17.82<br>17.82 | 3.02<br>3.02 | 3.30<br>3.30 | 2.92<br>2.92 | 9.17<br>9.17 | 7.98<br>7.98 | 20.91<br>20.91 |  |  |
| N 4                                                                                                                     |              |               |              |                |                              |                |              |              |              |              |              |                |  |  |

The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The full format of the quarterly financial results (Consolidated and Standalone) are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.talbros.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below. These standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended on 31 December 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved.

by the Board of Directors of Talbros Automotive Components Limited ("the Company") at their respective meetings held on 11 February 2025. The figures for the quarter ended 31 December 2024 and 2023 are the balancing figures between the unaudited figures in respect of nine months ended on that date and the published year to date figures upto the seconds quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review. The financials results for the quarter and nine months ended 31 December 2024 have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company. Mr. Anuj Talwar, JMD is duly authorised by Board to sign the financial results for submission to stock exchanges.

During the quarter ended March 31, 2024, the Company has completed the process of divesting and selling its entire 40% stake in Its Joint Venture "Nippon Leakless Talbros Private Limited" (NLTPL) Constituting 48,00,000 fully paid-up equity shares of Rs 10/- each for Rs 81.80 Cr. The sales proceeds was completed on 25th January 2024. The net gain from the transaction has been disclosed as exceptional items in the results. The capital gain tax on sale of investment has been disclosed as part of the tax expense in the results. Following table provides bifurcation of Profit After Tax (PAT) on other than exceptional items and exceptional Item.

|    |                                          |           | Quarter ended |           |            | Nine Months ended Year ended |            | Quarter ended |           |           | Nine Mon   | Year ended |            |  |
|----|------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|    | Particulars Particulars                  | 31-Dec-24 | 30-Sep-24     | 31-Dec-23 | 31-Dec-24  | 31-Dec-23                    | 31-Mar-24  | 31-Dec-24     | 30-Sep-24 | 31-Dec-23 | 31-Dec-24  | 31-Dec-23  | 31-Mar-24  |  |
|    |                                          | Unaudited | Unaudited     | Unaudited | Unaudited  | Unaudited                    | Audited    | Unaudited     | Unaudited | Unaudited | Unaudited  | Unaudited  | Audited    |  |
| A. | Other than Exceptional Items             |           |               |           |            |                              |            |               |           |           |            |            |            |  |
| 1. | Profit Before Exceptional Item           | 2,941.03  | 3,000.60      | 2,819.69  | 8,583.40   | 7,557.78                     | 10,424.37  | 2,424.80      | 2,698.24  | 2,348.46  | 7,460.30   | 6,461.91   | 8,925.02   |  |
| 2. | Tax Expenses                             | (558.73)  | (659.20)      | (544.97)  | (1,798.23) | (1,538.66)                   | (2,133.53) | (558.73)      | (659.20)  | (544.97)  | (1,798.23) | (1,538.66) | (2,133.53) |  |
|    | Profit After Tax                         | 2,382.30  | 2,341.40      | 2,274.72  | 6,785.17   | 6,019.12                     | 8,290.84   | 1,866.07      | 2,039.04  | 1,803.49  | 5,662.07   | 4,923.25   | 6,791.49   |  |
| В. | Monetization of NLTPL (Exceptional Item) |           |               |           |            |                              |            |               |           |           |            |            |            |  |
| 1. | Sale of Investment                       | _         | _             | _         | _          | _                            | 8,180.00   | _             | _         | -         | _          | _          | 8,180.00   |  |
| 2. | Cost of Investment (Book Value)          | _         | _             | _         | _          | _                            | (3,887.94) | _             | _         | -         | _          | _          | (480.00)   |  |
| 3. | Other Related Expenses                   | _         | _             | _         | _          | _                            | (46.52)    | _             | _         | -         | _          | _          | (46.52)    |  |
| 4. | Profit on Sales of Investments           | _         | _             | _         | _          | _                            | 4,245.54   | _             | _         | -         | _          | _          | 7,653.48   |  |
| 5. | Capital Gain Tax                         | _         | _             | _         | _          | _                            | (1,538.75) | _             | _         | -         | _          | _          | (1,538.75) |  |
|    | Profit After Tax (Exceptional Items)     | -         | _             | -         | -          | -                            | 2,706.79   | -             | _         | -         | -          | _          | 6,114.73   |  |

For Talbros Automotive Components Limited Anuj Talwar

Date: February 11, 2025 Place : Gurugram

# नालको 🔼 NALCO

A NAVRATNA COMPANY

#### National Aluminium Company Limited

(A Government of India Enterprise)

NALCO Bhawan, Plot No. P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha, India CIN: L27203OR1981GOI000920



Extracts of Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

DIN: 00628063

(₹ in Crore)

| ļ       |                                                                                                                                              |               | Standalone   |              |                              |              |                |               |              | Consolidated |                |              |         |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|--|--|--|
|         |                                                                                                                                              | Quarter Ended |              |              | Nine Months Ended Year Ended |              |                | Quarter Ended |              |              | Nine Mon       | Year En      |         |  |  |  |
| SI. No. | Particulars                                                                                                                                  | 31/12/2024    | 30/09/2024   | 31/12/2023   | 31/12/2024                   | 31/12/2023   | 31/03/2024     | 31/12/2024    |              |              | 31/12/2024     |              | 31/03/2 |  |  |  |
|         |                                                                                                                                              | (Unaudited)   | (Unaudited)  | (Unaudited)  | (Unaudited)                  | (Unaudited)  | (Audited)      | (Unaudited)   | (Unaudited)  | (Unaudited)  | (Unaudited)    | (Unaudited)  | (Audite |  |  |  |
| 1.      | Total Income from Operations                                                                                                                 | 4,662.22      | 4,001.48     | 3,347.58     | 11,519.80                    | 9,570.10     | 13,149.15      | 4,662.22      | 4,001.48     | 3,347.58     | 11,519.80      | 9,570.10     | 13,149  |  |  |  |
| 2.      | Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)                                                              | 2,121.90      | 1,436.55     | 668.21       | 4,375.46                     | 1,414.09     | 2,356.76       | 2,121.90      | 1,436.55     | 668.21       | 4,375.46       | 1,414.09     | 2,356   |  |  |  |
| 3.      | Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)                                                          | 2,121.90      | 1,436.55     | 668.21       | 4,375.46                     | 1,414.09     | 2,783.57       | 2,105.32      | 1,420.34     | 650.35       | 4,329.87       | 1,361.69     | 2,71    |  |  |  |
| 4.      | Net Profit for the period after Tax ( after Exceptional and/or Extraordinary items)                                                          | 1,582.90      | 1,062.18     | 488.47       | 3,246.30                     | 1,044.12     | 2,059.95       | 1,566.32      | 1,045.97     | 470.61       | 3,200.71       | 991.72       | 1,98    |  |  |  |
| 5.      | Total Comprehensive Income for the period Comprising<br>Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive<br>Income (after tax) | 1,576.98      | 1,048.35     | 487.59       | 3,228.53                     | 1,041.50     | 2,067.86       | 1,560.40      | 1,032.14     | 469.73       | 3,182.94       | 989.10       | 1,99    |  |  |  |
| 6.      | Equity Share Capital                                                                                                                         | 918.32        | 918.32       | 918.32       | 918.32                       | 918.32       | 918.32         | 918.32        | 918.32       | 918.32       | 918.32         | 918.32       | 9       |  |  |  |
| 7.      | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year                                          |               |              |              |                              |              | 13,653.34      |               |              |              |                |              | 13,46   |  |  |  |
| 8.      | Earnings Per Share (before extraordinary items) (of ₹ 5/- each) (not annualised):                                                            |               |              |              |                              |              |                |               |              |              |                |              |         |  |  |  |
|         | 1. Basic<br>2. Diluted                                                                                                                       | 8.62<br>8.62  | 5.78<br>5.78 | 2.66<br>2.66 | 17.68<br>17.68               | 5.68<br>5.68 | 11.22<br>11.22 | 8.53<br>8.53  | 5.70<br>5.70 | 2.56<br>2.56 | 17.43<br>17.43 | 5.40<br>5.40 |         |  |  |  |

ailable on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com; and Company's website, www.nalcoindia.com

- (1) In absence of Audit Committee, the Financial Results have been presented and approved at the meeting of the Board of Directors held on 10th February, 2025. Limited review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Joint Statutory Auditors of the Company.
- (2) The Company has four Joint Venture companies namely 1. M/s. Angul Aluminium Park Pvt. Limited, 2. M/s. GACL-NALCO Alkalies & Chemicals Private Limited, 3. M/s. Khanij Bidesh India Limited, 4. M/s. Utkarsha Aluminium Dhatu Nigam Limited. Out of the four joint venture companies whose financials have been consolidated, financials of M/s. Angul Aluminium Park Pvt. Limited, has been consolidated on the basis of financials as certified by the management as on reporting date, the effect of which is not materia
- (3) During the quarter, M/s. GACL-NALCO Alkalies & Chemicals Private Limited, a Joint Venture company, has issued Compulsory Convertible Debentures (CCDs) of ₹ 500 crore carrying coupon rate at 91 days T bill plus spread of 2.03 % with quarterly reset and having tennure of 5 years. An Option Agreement has been signed between promoters (The Company and M/s Guiarat Alkalies and Chemicals Limited). M/s PNB Investment Services Ltd (Debenture Trustee) and M/s GACL-NALCO Alkalies & Chemicals Private Limited (issuer) wherein the sponsors (promoters) have granted the mandatory put option and accelerated put option to the investor and retained accelerated buyout option and mandatory buyout option.
- (4) The Board of Directors at its meeting held on 13th November 2024 has approved interim dividend of ₹ 4/- per equity share (80% on face value of ₹ 5/- each) amounting to ₹ 734.65 crore for the FY-2024-25 which was paid on 11th December 2024. The 2nd interim dividend of ₹ 4/- per quality share (80% on face value of ₹ 5/- each) amounting to ₹ 734.65 crore for the FY 2024-25 has been approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th February, 2025 (5) Based on the recommendation of the Board, the shareholders of the Company has approved final dividend of ₹2/- per equity share (40% on face value of ₹5/- each) amounting to ₹367.33/- crore for the FY 2023-24 at the 43rd Annual General Meeting held on 27th
- September, 2024 and the same was paid on 24th October, 2024, The total dividend pay out for the FY 2023-24 is ₹ 5/- per equity share (interim dividend of ₹ 3/- per share and final dividend of ₹ 2/- per share) amounting to ₹ 918.32/- crore. (6) The Company has not recognised the revenue from its two wind power plants (WPP) located in the State of Rajasthan due to non execution of fresh Power Purchase Agreement (PPA) since 01.04.2019 and such issue being subjudice before Hon'ble High Court of Rajasthan based on writ petition filed by the Company. In view of long pending disputes for execution of PPA, Impairment of WPPs at Ludharva and Devikot at Rajasthan carried out earlier has been reassessed and an additional impairment provision of ₹ 106 crore
- Similarly, due to non execution of PPA for WPP-Gandikota, Andhra Pradesh, power generated is wheeled to captive power plant at Angul, Odisha for Internal consumption.
- (7) The Government of Odisha vide Orissa Gazette extraordinary notification dated 31-01-2005 had notified "Orissa Rural Infrastructure and Socio-Economic Development Act 2004 (ORISED Act)" applicable from 01-02-2005, levving tax on mineral bearing land. Constitutional validity of ORISED Act, 2004 was challenged by the Company before Hon'ble Orissa High Court. The Hon'ble Orissa High Court vide its judgement dated 05.12.2005 had struck down the said Act holding that the State Government has no legislative authority to levy tax on minerals. Consequently, the State of Odisha had challenged the judgement of Hon'ble High Court of Orissa before Hon'ble Supreme Court. Subsequently, during the pendency of said appeal, the matter was referred to the Constitution Bench of nine Judges of Hon'ble Supreme Court.
- The Constitution Bench of nine Judges of the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 25-07-2024 held that legislative power to tax mineral rights vests with the State legislature. Pending hearing of the appeal by regular Bench of Hon'ble Supreme Court against the judgment of Constitution Bench and order of Hon'ble High Court of Orissa, the Company is not in a position to assess any obligation as on 31.12.2024.

(8) Figures pertaining to previous periods have been regrouped, recasted and rearranged, wherever necessary.

Place : Bhubaneswar Dated: 10th February, 2025

 ■ Bauxite Mining
 ■ Alumina Refinery
 ■ Aluminium Smelter
 ■ Captive Power Plant 



"Europe is still our number one market with more than 50 per cent of our business. But, the Asia Pacific region is the second BS REPORTER biggest region for us," said Kalmbach.

**National Aluminium Company Limited** 

"Unleashing Potential, Shaping New Frontiers"

(Brijendra Pratap Singh)